

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 165] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 26, 1980/वैशाख 6, 1902

No. 165] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 26, 1980/VAISAKHA 6, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1980

का. आ. 278(अ).—डाक वर्कर्स (एम्प्लोयमेंट कंट्रोल) रूल्स, 1962 के
नियम 6 के उप-नियम (1) के दूसरे परन्तुक और नियम 3 के उप-नियम (2)
के साथ पठित डाक वर्कर्स (रेगुलेशन आफ एम्प्लोयमेंट) ऐक्ट, 1948 (1948 का
9) की धारा 5 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के द्वारा श्री टी. के. उन्नी को श्री एफ. सी. आर.
मकाडो के स्थान पर जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, गोदी मजदूर सलाहकारी
समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन

और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2626 दिनांक 6 अगस्त, 1977 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "गोदी मजदूरों और गोबरहन कम्पनियों के प्रतिनिधि सदस्य" शीर्षक के अधीन क्रम संख्या 6 के सामने "श्री एन. सी. आर. मकाडो" के स्थान पर "श्री टी. के. उन्नी" लिखा जाएगा।

[फा. सं. एल. डी. ओ. /88/77-डी. IV]

वी. एन. आर. राव, सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 1980

S.O. 278(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), read with sub-rule (2) of rule 3 and the second proviso to sub-rule (1) of rule 6 of the Dock Workers (Advisory Committee) Rules, 1962, the Central Government hereby appoints Shri T. K. Unny, as a member of the Dock Workers Advisory Committee, vice Shri F. C. R. Machado who resigned, and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2626, dated the 6th August, 1977, namely :—

In the said notification, under the heading "Members representing the employers of dock workers and shipping companies", in item 6, for the entry "Shri F. C. R. Machado", the entry "Shri T. K. Unny" shall be substituted.

[F. No. LDO/88/77-D. IV]

V. N. R. RAO, Under Secy.